

**Date:** 21<sup>st</sup> March, 2019

1. Listing Department (Fax: 022-22723719 /22722037/  
BSE Limited 22722041 /22722061/  
Phiroze Jeejeebhoy Towers 22722039 /22658121)  
Dalal Street, Mumbai 400001
  
2. Listing Department (Fax: 022-26598237/26598238)  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor  
Plot No. C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex  
Bandra (East), Mumbai 400051

**Subject:** Advertisement of Notice/ intimation regarding lost/ misplaced/ stolen shares

**Reg.: Regulation 39 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 39 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that the share certificates (as per **Annexure-I**) have been reported to be lost/ misplaced/ stolen. The Holder(s) of these shares have requested us to issue duplicate share certificate in lieu of the original. We are in the process of issuing Duplicate Share Certificate to this shareholder.

You are requested to caution your members not to deal in or make any transaction w.r.t. these shares.

The copies of advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated 21<sup>st</sup> March, 2019 are annexed as **Annexure-II**.

This is for your kind information and necessary action please.

Regards.

Yours truly,

For **Federal-Mogul Goetze (India) Limited**

  
**Authorised Signatory**

Encl: as above

**ANNEXURE - I**

**FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED**

Notice/ Intimation regarding lost/ misplaced/ stolen shares  
[Regulation 39 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

S.No.	Name of the Shareholder(s)	Certificate No.	Distinctive No.		No. of equity shares
			From	To	
1.	Lt. Sudesh Ghai	8437	2918801	2918850	50
		57966	5857039	5857063	25



**FEDERAL FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED**  
**MOGUL**  
 Regd. Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F - 79 & 80,  
 GOETZE INDIA Okhla Phase-I, New Delhi-110020, CIN : L74899DL1954PLC002452  
 Tel./Fax: + 91 11 - 49057597  
 E mail: investor.grievance@federalmogul.com, Website: www.federalmogulgoetzeindia.net

**LOSS OF SHARE CERTIFICATES AND ISSUE OF DUPLICATE THEREOF**  
 Notice is hereby given that below mentioned certificate have been reported lost/misplaced and that the Company shall issue Duplicate Share Certificate in respect thereof unless any valid objection letter accompanied by proper authenticated supporting documents is received by the Company at its registered office within 15 days from the date of publication of this notice.

Name of the Shareholder(s)	Certificate No.	Distinctive No. From-To	No. of Shares
Lt. Sudesh Ghai	8437	2918801-2918850	50
	57966	5857039- 5857063	25

Public in general and investors as well as share brokers in particular are hereby cautioned against dealing in said share certificates in any manner whatsoever.  
 For Federal-Mogul Goetze (India) Limited  
 (Khalid Iqbal Khan)  
 Whole-time Director-Legal & Company Secretary

Place: New Delhi Dated: 20<sup>th</sup> March, 2019

**JAYPEE INFRATECH LIMITED**

CIN: L45203UP2007PLC033119  
 Registered Office: Sector - 128, Noida - 201304, U.P.  
 Delhi Office: 'JA House', 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057  
 Tel: +91 (120) 4609000, Fax: +91 (120) 4609464 Website: www.jaypeeinfotech.com  
 E-mail: jpinfratech.investor@jalindia.co.in

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS**

Requirements of Section 124(6) of the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2013, as amended the Company is required to transfer the shares, in respect of which the dividends are unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to IEPF Demat Account of the Central Government.  
 In compliance of the above, the Company has been communicating to the shareholders the details of unclaimed dividends are available on Company's website and requesting to submit requisite enclosures to claim their unpaid dividend since the Company is now required to transfer their respective shares at the time of transfer of unclaimed dividend to IEPF on due dates against the dividend in below table, if the said dividend and all subsequent dividends are unclaimed by them. Such communications have been made to all the shareholders through a circular in the Notices of 10th and 11th AGM, through individual letters to all such shareholders and the below mentioned dividends remains unclaimed, posted at their latest available address and through publication of Notice in the newspapers in November, 2017 and this Notice. The claims must be submitted immediately and not later than 15 days before the due date against each dividend. This notice is being given in respect of all the below dividends in compliance of above mentioned section and Rules and giving further communication will be mandatory for the Company before their dividend and the respective shares are transferred by the Company to IEPF. It is requested once again to search your particulars in the files below link and ascertain whether your name is appearing in these lists as a shareholder and the shares shall be due for transfer to IEPF Demat Account. The lists are available at [www.jaypeeinfotech.com](http://www.jaypeeinfotech.com).

Year	Date of transfer/Due date of transfer to IEPF
2010-11	03.11.2018
2011-12	18.12.2018
2011-12	02.11.2019
2012-13	03.09.2020

Shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the old certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF DEMAT Account in compliance of (d) of the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in the name of the shareholders shall automatically stand cancelled and shall be deemed to be non-existent. The shares held in demat form, the shares shall be transferred directly to IEPF DEMAT Account of the Depository Participant in accordance with the Rules. The Shareholders may further upload the details of shares transferred by the Company on its website should be considered as an adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for transfer of shares to IEPF DEMAT Account pursuant to the Rules.  
 Shareholders may note that the unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF/IEPF DEMAT Account, all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by the concerned Shareholders by making an online application in Form IEPF - 5 which is available at [www.iefpf.gov.in](http://www.iefpf.gov.in).

For any clarification in respect of the above, may kindly contact the Company or its Registrar and Transfer Agent at Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32, Connaught Place, New Delhi-110054.

**ALANKIT LIMITED**  
 CIN: L74900DL1989PLC03666  
 Regd. Off: 205-208, Anarkali Complex, Jhandawalan Extension, New Delhi-110055  
**PUBLIC NOTICE**  
 This is to inform you that the Board of Directors have at their meeting held on 20th March, 2019 declared an Interim Dividend of Re. 0.20 per share for the financial year 2018-19 on the paid-up capital of Rs. 14,29,58,100/- represented by 14,29,58,100 equity shares of Re. 1/- each at the rate of 20% per share.  
 The dividend will be paid to those shareholders, whose names stand on the Register of Members of the Company as on the Record Date i.e. Friday, 29th March, 2019.  
 Place: New Delhi Date: 20th March, 2019  
 For Alankit Limited  
 Ankit Agarwal  
 Managing Director

**Indian Bank**  
 Morvi Branch, 7-1-27,  
 Jail Road, Morvi-363641, Dist- Rajkot,  
 Tel: 02822-222221, Fax: 223221  
 Website Address: www.indianbank.in Email: morvi@indianbank.co.in  
**APPENDIX IV (Rule-8(1)) POSSESSION NOTICE (For movable properties)**

Where as The undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 16.11.2018 Calling upon the borrower M/s. Shree Shubh Oil Industries, Mr Hitesh Babulal Savsani, Mr Hareesh Babulal Savsani Mr Ashvin Babulal Savsani, and Mrs. Dayaben Babulal Savsani, with our Morvi branch to repay the amount mentioned in the notice being ₹ 1,82,00,180.25 (In words ₹ One Crore Eighty Two Lakhs One Hundred Eighty and Twenty Five Paise Only) as on 31.10.2018 with interest as mentioned in notice, within 60 days from the date of receipt of the said notice.  
 The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13 (4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rules on this 11th day of March of the year 2019.  
 The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank Morvi Branch, Morvi (Gujarat) for an amount of ₹ 1,82,00,180.25 (In words ₹ One Crore Eighty Two Lakhs One Hundred Eighty and Twenty Five Paise Only) and interest there on w.e.f. 01.11.2018 plus other charges. (Amount deposited after issuing of Demand Notice U/Section 13(2) will be given effect in due course)  
 "The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets."

**Annexure Details of Movable Properties**  
**Hypothecated assets :** Hypothecated assets/ stocks/ movables/Plant and Machinery and lying at Factory land & building (under construction -Build up area Sq Mt 1022.36) standing on plot no. -1 totally adm Sq Mt 4047.00 of N.A. land S. No. 282P of Village Nesda (Surji) under Tankara taluka, Dist Morbi-363650 and/or at any other place.  
 Date: 11.03.2019  
 Sd/  
 Authorised Officer  
 Indian Bank,  
 Place: Morvi

**FORM A**  
**PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
 (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)  
**FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF**  
**ADHARSHILA COUNTRY HOMES PRIVATE LIMITED**

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of Corporate Debtor	Adharshila Country Homes Private Limited
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	3rd December 2012
3. Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Delhi
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70102DL2012PTC245568
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Plot No 3142/A KH No 747/11 Ground Floor Kasturba Block Street No 6 Jain Nagar Triabhak Nagar Karala New Delhi North West DL 110081 IN
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	19th March 2019 being the date of order of NCLT, Delhi.
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	15th September 2019 being 180 days from the Insolvency Commencement date i.e. 19th March 2019
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Sanjay Sehgal Registration No



